



पीएनबी 1411 / PNB 1411

दिनांक/Dated: _____

प्रिय महोदय/महोदया, / Dear Sir / Madam,

विषय : आपकी _____ ऋण सीमा ₹ _____ के लिए

Reg.: Your _____ Limit for ₹ _____

आपकी _____ ऋण सीमा के संबंध में उधारकर्ता और/या गारंटीकर्ता के रूप में दिनांक _____ को, आपके द्वारा बैंक को ब्याज सहित, ₹ _____ की राशि देय है। जिस पर आगे भी _____% मासिक दर से ब्याज लगेगा। कृपया इस देय राशि की सही होने की पुष्टि में संलग्न फॉर्म पर हस्ताक्षर करके हमें लौटा दे।

A sum of ₹ _____ is due and payable by you to the Bank as borrower/or guarantor in respect of your _____ limit with interest as on besides further interest at the rate of _____% p.m. Please sign and return the attached form after confirming the correctness of the amount due.

भवदीय/ Yours faithfully,

प्रबंधक / Manager

बकाया शेष राशि एवं प्रतिभूति पुष्टि पत्र
Balance & Security Confirmation Letter

प्रबंधक / The Manager,
पंजाब नैशनल बैंक/ Punjab National Bank,

.....

महोदय/महोदया, Madam/Sir,

विषय/ Reg.: सावधि ऋण / नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट / एनएफबी या कोई अन्य ऋण सुविधाएं/ Term Loan / Cash Credit / Overdraft /NFB or any other credit facilities

उधारकर्ता (ओं) का नाम : Name of Borrower(s):

1. मैं/हम उधारकर्ता (ओं) और/या गारंटीकर्ता के रूप में, समय-समय पर मेरे/हमारे द्वारा आपके पक्ष में निष्पादित ऋण एवं प्रतिभूति दस्तावेजों का संदर्भ लेते हैं, जो मुझे/हमें/मैसर्स [..... उधारकर्ता का नाम] को प्रदान की गई ऋण सुविधाओं (नीचे दिए गए विवरण के अनुसार) से संबन्धित है।

I/We as being borrower(s) and/or as being guarantor(s) refer to the Loaning & Security Documents executed by me/ us in your favour from time to time, in respect



of the credit facilities (details provided below) granted to me/us/M/s [.....Borrower Name].

2. मैं/हम, एतदद्वारा ऋणी और/या गारंटीकर्ता के रूप में निम्नलिखित ऋण खातों में बैंक को देय नामे शेष की सत्यता की पुष्टि, अभिस्वीकृति और इसे स्वीकार करते हैं:

I /we, hereby confirm, acknowledge and admit the correctness of the debit balance due to the bank as borrower(s) and/or as guarantor(s) hereby in the following loan accounts:

क्र.सं. S.No	ऋण सुविधा की प्रकृति/ Nature of loan Facility	ऋण खाता संख्या / Loan Account Number	दिनांक के अनुसार बकाया नामे शेष, जिसमें दिनांक..... तक का परिकलित/देय ब्याज शामिल है/ Debit balance outstanding as onWith interest calculated up to	* वर्तमान वार्षिक ब्याज दर अंतरालों (मासिक/त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक) के साथ / *Present Rate of interest per annum with rests (Monthly/Quarterly/Half-Yearly)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

* ऋण एवं प्रतिभूति दस्तावेजों/आरबीआई के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार ब्याज दर परिवर्तित होते हैं।

* Rate of interest varies as per the terms of Loaning & Security Documents/RBI Guidelines

3. प्रतिभूति के रूप में, बैंक के पास दिनांक के समझौते के अनुसार मेरे/हमारे स्टॉक/उत्पाद/मशीनरी/..... (उत्पाद का प्रकार) का दृष्टिबंधक /गिरवी /प्रभार /समनुदेशन आदि है, और/या मेरी/हमारी संपत्तियों पर दिनांक को सृजित पंजीकृत बंधक /साम्यिक बंधक है।

As security, the Bank is having hypothecation/pledge/charge/assignment etc. of my/our stocks/goods/machinery/.....(type of goods) vide agreement dated.....and/or registered mortgage/equitable mortgage created onof my/our properties.

4. मैं/हम आगे पुष्टि और स्वीकार करते हैं कि मुझे/हमें ऊपर उल्लिखित तिथि तक ऋण सुविधाओं/ऋण खाते (खातों) में बैंक द्वारा दिए गए खाते का विवरण और ब्याज एवं अन्य शुल्कों का विवरण प्राप्त हो गया है और उसकी जांच कर ली गई है और वह मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित उक्त ऋण एवं प्रतिभूति दस्तावेजों के अनुरूप पाया गया है।

I/We further confirm and acknowledge having received the statement of account(s) and details of interest / and other charges, levied by the bank in the credit facilities/loan account(s) up to the date as mentioned above and same has been checked and found in accordance with the said Loaning & Security Documents executed by me/us.



5. मैं/हम पूर्ण रूप से जागरूक हैं और स्वीकार करते हैं कि मेरी/हमारी उपर्युक्त देयता के अतिरिक्त, मैं/हम उक्त ऋण एवं प्रतिभूति दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार अन्य प्रभारों/खर्चों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हूँ/हैं, जो उक्त खाते (खातों) में नामे नहीं किए गए हैं।
I/We are fully aware and acknowledge that besides my/our above-mentioned liability, I/We are liable to pay the other charges/ expenses as per the terms of the said Loaning & Security Documents not debited in the said account(s).
6. मैं/हम स्वीकार करते हैं कि यह पत्र उक्त बकाया ऋण और देयतायों के संबंध में, नीचे मेरे/हमारे हस्ताक्षर की तिथि से, भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 और किसी भी अन्य समान परिसीमन कानून के अंतर्गत एक नई परिसीमा अवधि प्रारंभ करता है।
I/We acknowledge that this letter commence a fresh period of limitation under Indian Limitation Act, 1963, and any other like limitation law from the date of my/our signature below, in respect of the said outstanding indebtedness and liabilities.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / उधारकर्ता / गारंटीकर्ता का नाम/ Names of Authorised Signatory/ Borrower(s)/Guarantor(s)	हस्ताक्षर (टिकट के ऊपर) /Signatures (Across the stamp)